



Geared for life

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works :

20, K.M. Mathura Road, P.O.Box 328

P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA

Tel. : +91 (129) 4288888, E-mail : info@bglindia.com

Corporate Identity Number : L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/NOVEMBER 2020-2021

BGL/SEC/BSE/2/NOVEMBER 2020-2021

November 10, 2020

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor
Plot No. C-1, G-Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai-400001

SYMBOL: BHARATGEAR

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Un-Audited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2020

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended September 30, 2020 published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) on November 10, 2020.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bharat Gears Limited**


Prashant Khattry
Head (Legal) and Company Secretary



Encl: As above



Mumbai Office : 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA

Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax :+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com

Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA

Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com

TURBULENT TRANSITION

Biden moves forward with Covid task force

Scientists will liaise with local officials on the pandemic response


REUTERS
Washington, November 9

PRESIDENT-ELECT JOE Biden will convene a coronavirus task force on Monday to examine the No. 1 problem confronting him when he takes office in January, while President Donald Trump pursues several long-shot gambits to hold on to his job.

Biden is due to meet with an advisory board co-chaired by former Surgeon General Vivek Murthy, former Food and Drug Administration Commissioner David Kessler and Yale University Associate Professor Marcella Nunez-Smith to examine how best to tame a pandemic that has killed more than 237,000 Americans.

The Democratic former vice president will then give remarks in Wilmington, Delaware, about his plans for tackling Covid-19 and rebuilding the economy.

"Dealing with the coronavirus pandemic is one of the most important battles our administration will face, and I



will be informed by science and by experts," Biden said in a statement on Monday.

Even as Trump declines to concede and some of his closest allies encourage him to exhaust every recourse for hanging onto power, the Biden-appointed scientists and experts will liaise with local and state officials on the pandemic response. They will consider how to safely reopen schools and businesses and tackle racial disparities.

The Biden panel includes Rick Bright, a whistleblower who says he was removed from his Trump administration post for raising concerns about coronavirus preparedness, and Luciana Borio, who specialises in complex public health emergencies.

Trump has frequently clashed with top health officials over the pandemic. Vice

President Mike Pence is due to meet with the White House coronavirus task force on Monday for the first time since Oct. 20.

Biden cleared the threshold of 270 Electoral College votes needed to win the White House on Saturday, four days after the November 3 election.

He beat Trump by more than 4 million votes nationwide, making Trump the first president since 1992 to lose re-election.

But Trump has not acknowledged defeat and has launched an array of lawsuits to press claims of election fraud for which he has produced no evidence. State officials say they are not aware of any significant irregularities.

"The Biden selection by the Crooked Media is based on unlawful votes in PA, Mich, GA, Wisc, Nevada et al. We will prove it all," Rudy Giuliani, Trump's personal lawyer and a former New York City mayor, said on Twitter early Monday.

Trump has no public events scheduled for Monday, and has not spoken in public since Thursday.

He plans to hold rallies to build support for his challenge to the election results, campaign spokesman Tim Murtaugh said.

WHO chief looks forward to working 'closely' with Biden team

REUTERS
Geneva, November 9

THE WORLD HEALTH Organization chief welcomed efforts on Monday to strengthen the Geneva-based body through reform and said that it was looking forward to working closely with the administration of US President-elect Joe Biden.

WHO's funding must become more flexible and predictable to end a "major misalignment" between expectations and available resources, WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus said, citing reform efforts by France, Germany and the European Union.

"We still have a lot of work left to do, but we believe that we're on the right track," Tedros told health ministers as the annual meeting resumed of the WHO, which groups 194 countries.

US President Donald Trump has frozen US funding to the WHO and begun a process that would see the United States withdraw from the body next July. He accuses the WHO of being "China-centric" in its handling of the pandemic, which Biden has repeatedly denied. Tedros, who will convene a national coronavirus task force on Monday, said during campaigning he would rescind Trump's decision to abandon the WHO.

China's tech industry relieved by Biden win - but not relaxed

REUTERS
Shanghai/Beijing, November 9

CHINA'S TECHNOLOGY INDUSTRY, one of President Donald Trump's main targets in Washington's tussles with Beijing, hopes Joe Biden can create a more constructive relationship - but few think the

rivalry will deescalate, executives and analysts say.

Trump's four-year term has already taught the industry the importance of self-reliance, and China's intentions to improve its domestic tech capabilities will not change, they said.

"When Biden takes office, tech companies in China

might be relieved," said Fang Xingdong, director of the Consortium of Internet and Society at the Communication University of Zhejiang. "At least, the US is supposed to re-advocate openness, re-respect fair competition, and re-advocate innovation," Fang added. "However, in the high-tech field, competition and game

theory will not end, and China and the US will compete with each other with true innovation capabilities in the next decade." Chinese tech giants Huawei Technologies to TikTok owner ByteDance to Tencent Holdings have seen their supply chains upended or stymied by sanctions issued by the Trump administration.

Ant Group's stalled IPO seen slashing its value by \$140 billion

BLOOMBERG
November 9

CHINA'S MOVE TO halt Ant Group's massive stock debut could reduce the fintech giant's value by as much as \$140 billion, according to analysts' revised estimates.

New regulations that could force Ant to raise more capital to back lending and seek national licenses to operate across the country may reduce the firm's valuation by about half, according to estimates from Morningstar and other firms. The regulatory details are preliminary and could be subject to change.

If Ant's \$280 billion pre-IPO valuation is halved, it would essentially mean the company is worth less than what it was two years ago when it raised money from some of the world's largest funds including Warburg Pincus, Silver Lake Management and Temasek Holdings.

The reduced valuation also means potentially lower fees for investment banks like China International Capital Corp that were counting on a windfall from Ant's record-setting IPO. And it gives billionaire Jack Ma's firm less heft to carry out acquisitions as it looks to expand beyond its Chinese base and take the fight domestically to Tencent Holdings. In a drastic turn of events, China put the brakes last week on Ant's \$35 billion share sale just days before the fintech juggernaut was due to go public in Shanghai and Hong Kong.

PC Jeweller Limited

Extract of un-audited consolidated financial results for the quarter and six months ended September 30, 2020

S. No.	Particulars	Quarter Ended		
		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	429.95	490.82	1212.19
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(65.81)	(142.27)	47.74
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(65.81)	(142.27)	47.74
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.68)	(127.23)	46.38
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(56.56)	(135.40)	49.87
6.	Equity Share Capital	395.07	395.07	395.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)
1.	Basic (₹):	(1.36)	(3.22)	1.18
2.	Diluted (₹):	(1.36)	(3.22)	1.17

S. No.	Particulars	Quarter Ended		
		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	381.99	428.53	1124.75
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax	(62.03)	(142.94)	43.07
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(48.43)	(126.47)	39.84

Note:
The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and six months ended September 30, 2020 are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company at the URL: https://corporate.pcjeweller.com/financial-results-and-annual-report/.

For and on behalf of the Board
PC Jeweller Limited
Sd/-
Balram Garg
(Managing Director)
DIN: 00032083

Place: New Delhi
Date: November 9, 2020

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092, CIN: L36911DL2005PLC134929
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: www.pcjeweller.com, e-mail: investors@pcjeweller.com

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana)
Ph.: +91 (129) 4288888 Fax: +91 (129) 4288822-23
E-mail: info@bglindia.com Web: www.bharatgears.com CIN: L29130HR1971PLC034365

Geared for Life

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER, 2020

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Six months period ended		Previous year ended
		30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	12,824	4,926	13,271	17,750	24,759	46,312
2.	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(228)	(1,542)	9	(1,770)	(1,071)	(2,482)
3.	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(228)	(1,542)	9	(1,770)	(1,071)	(2,482)
4.	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(207)	(1,314)	(158)	(1,521)	(861)	(1,877)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(219)	(1,324)	(197)	(1,543)	(912)	(1,950)
6.	Equity share capital	931	931	931	931	931	931
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	7,027	7,027	8,035	7,027	8,035	7,027
8.	Earnings per share [Face value of ₹ 10/- each (* not annualised)] Basic and diluted (₹)	*(2.23)	*(14.12)	*(1.70)	(16.35)	*(9.44)	(20.38)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarter and six months period ended 30 September, 2020 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and six months period ended 30 September, 2020 Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.bharatgears.com).
2. Previous period's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
SURINDER PAUL KANWAR
Chairman & Managing Director

Date : 09 November, 2020

For All Advertisement Booking Call : 0120-6651214

STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch, Retail

1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi - 110015, Ph: 25419177, 25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in

"APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below mentioned Immovable properties/ies mortgaged/charged to the Secured Creditor (State Bank of India), the physical possession mentioned below of which has been taken by the Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis on 30-12-2020, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The reserve price is mentioned below and the earnest money to be deposited is mentioned respectively.

Sr. No.	Name & Address of Borrower (B) /Guarantor(s) (G) /	Address of Security charged covered under Auction (Symbolic / Physical Possession)	Reserve Price(RP) EMD Amount 10% of The Reserve Price Incremental Amount	Outstanding Dues for recovery of which properties are being sold	Authorised Officer Contact No.
1	Mr. Mohd. Kasim S/o Mr. Shahbuddin Alvi situated at Flat No. B-1604, 16th Floor, Tower-B, Angel Mercury, Near Delhi Public School, Ahinsa Khand-II, Indrapuram, Ghaziabad (U.P.) 201014	Property is bearing No. Flat No. B-1604, 16th Floor, Angel Mercury, Near Delhi Public School, Ahinsa Khand-II, Indrapuram, Ghaziabad (U.P.) 201014. (Physical Possession with Bank)	₹ 62.05 Lacs ₹ 6.21 Lacs ₹ 0.50 Lacs	Rs. 60.44 Lacs as on 30-06-2020 plus future interest and expenses due	Sh. Hari Singh Mob. 9166157888

Date of E-Auction : 30-12-2020 Time : 60 Minutes From 12.00 Noon to 01:00 P.M. with unlimited extensions of 5 Minutes each
Date / Time of On - site Inspection of Property : 28-12-2020 11.00 AM to 03.00 PM

Last Date and time for submission of EMD & request letter of participation, KYC Documents, PAN Card, Proof of EMD etc. On or before 29-12-2020 upto 4.00 P.M. personally (Hard Copy) and online through RTGS/NEFT.

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER:
1. E-Auction is being held on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis and will be conducted "On Line". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider M/s e-Procurement Technologies limited (Auction Tiger) (Contact No. 079-40230833/832 at their web portal https://sbi.auctiontiger.net. E-Auction Tender Document containing online e-auction Bid form, Declaration, General Terms and Conditions of online auction sale are available in https://sbi.auctiontiger.net.
2. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the properties/ies. However, the intending bidders should make their own independent inquiries re-garding the encumbrances, title of properties/ies put on auction and claims / rights / dues / affecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims / rights / dues.
3. The sale shall be subject to rules / conditions prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
4. The other terms and conditions of the e-auction are published in the following websites. https://auctiontiger.net, https://www.sbi.co.in

Date : 09-11-2020, Place : New Delhi
Sd/- Authorised Officer, State Bank of India

GLOBAL GENERICS • DIAGNOSTICS • FORMULATIONS • SELF HEALTH PRODUCTS

MOREPEN LABORATORIES LIMITED

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Office : Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173205
Tel: +91-1795-266401-03, 244590, Fax: +91-1795-244591
Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com

Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results For the Quarter & Half Year Ended 30th September, 2020

(₹ in Lakhs, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	34012.85	25897.12	21624.13	59909.97	41950.39	86255.04
2	Net Profit for the period before Tax	2751.98	1955.50	923.90	4707.48	1691.93	3910.76
3	Net Profit for the period after Tax	2716.90	1936.71	408.21	4653.61	1174.11	3357.89
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	2664.42	2030.38	277.34	4694.80	1048.89	3096.83
5	Paid-up Equity Share Capital of Face Value of ₹2/- each	8995.86	8995.86	8995.86	8995.86	8995.86	8995.86
6	Reserves excluding Revaluation reserve	-	-	-	-	-	19410.25
7	Earning Per Share (in ₹)	0.60	0.43	0.09	1.03	0.26	0.75
		Basic & Diluted					

Note:-
A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange's websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.morepen.com.
B. Additional Information on Standalone financial results is as follows:- (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
		30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2019		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
1	Total Income from Operations	31833.22	24458.72	20269.61	56291.94	39244.26	80140.46
2	Net Profit for the period before Tax	2562.03	1884.67	968.92	4446.70	1809.70	3748.18
3	Net Profit for the period after Tax	2562.03	1884.67	454.05	4446.70	1294.83	3233.31
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	2508.24	1975.21	325.11	4483.45	1175.37	2979.03

By the order of Board of Directors
For Morepen Laboratories Limited
Sd/-
(Sushil Suri)
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date : November 9, 2020

